



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939

No. 716]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

**सा.का.नि. 1042(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग 3 - अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 का जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ संरक्षण सहायक और संरक्षण सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ज्येष्ठ संरक्षण सहायक के पदों की भर्ती पर पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ज्येष्ठ संरक्षण सहायक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ संरक्षण सहायक	144*(2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6	चयन	“30 वर्ष से अनधिक” (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ; (ii) सिविल इंजीनियरिंग कार्य या किसी पुरातत्व	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

<p>अथवा विरासत स्थल की योजना तैयार करने, निष्पादन और रख-रखाव में दो वर्ष का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1.</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2.</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>		
---	--	--

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा शामिल है) 60% सीधी नियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 ऐसे संरक्षण सहायक जिन्होंने उन श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनकी शैक्षिक अर्हता कम से कम सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और जिन्होंने संरक्षण में विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित ग्रेड अथवा पद में विहित अर्हक सेवा पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं)</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी और स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 के पदों पर नियमित</p>

	<p>आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्षों की सेवा की हो तथा (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</b></p> <p>अपर महानिदेशक (प्रशासन) : अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>संयुक्त महानिदेशक (संरक्षण) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>निदेशक (संरक्षण) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>उप-निदेशक (प्रशासन) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति</b></p> <p>निदेशक (प्रशासन) : अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>निदेशक (संरक्षण) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर : सदस्य</p> <p>उप निदेशक (प्रशासन) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p>	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 3-3/2016-योजना एंड एचआरडी (भर्ती नियम)]

राकेश सिंह लाल, अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन)

**MINISTRY OF CULTURE**

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2017

**G.S.R. 1042(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class III – Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as it relates to the posts of Senior Conservation Assistant and Conservation Assistant Grade-I, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Conservation Assistant in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Senior Conservation Assistant (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of the post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such and other party to the marriage and there are other ground for doing so, exempting person from the operation to this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Conservation Assistant	144*(2017) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted Non-Ministerial	Level 6 in the Pay Matrix	Selection	Not exceeding 30 years  (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in

					Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	---

<b>Educational and other qualifications required for direct Recruits.</b>	<b>Whether age and educational qualification prescribed for direct Recruits will apply in case of promotees.</b>	<b>Period of probation</b>	<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.</b>
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential</b> (I) Diploma in Civil Engineering from a recognised Institute; plus (II) Two years' experience in planning, execution and maintenance of civil engineering works or any Archaeological or heritage site. <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees.	40% by Promotion failing which by Deputation (including short term contract); 60 % by Direct Recruitment.

<b>In case of recruitment by Promotion/Deputation/absorption, grades from which Promotion/Deputation/ absorption to be made.</b>	<b>If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.</b>	<b>Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.</b>
(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Conservation Assistant, in Level 4 of Pay Matrix with ten years' regular service in the grade who possess the educational qualification of at least a Diploma in Civil Engineering and have completed the prescribed in-service training in conservation. Note1: The eligibility list of promotion shall be prepared with reference to the date of completion	<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee;</b> Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India : Chairman Joint Director General (Conservation) Archaeological Survey of India : Member	Consultation with UPSC not necessary.

<p>by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short term contract):</b> Officers under the Central or State Governments or Union Territory administration or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or semi-Government or Statutory or Autonomous organisation:</p> <p>(A)(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(II) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 in the pay matrix in the parent cadre or department; or</p> <p>(III) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 in the pay matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(B) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> (Period of Deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the date of receipt of applications.)</p>	<p>Director (Conservation) Archaeological Survey of India : Member</p> <p>Deputy Director (Admn.) Archaeological Survey of India : Member</p> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee;</b></p> <p>Director (Administration) Archaeological Survey of India : Chairman</p> <p>Director (Conservation) Archaeological Survey of India : Member</p> <p>Superintending Archaeological Engineer</p> <p>Archaeological Survey of India : Member</p> <p>Deputy Director (Administration)</p> <p>Archaeological Survey of India : Member</p>	
---	--	--

[F. No. 3-3/2016-Plg &amp; HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Director (Administration)